



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 20 नवम्बर, 2020  
कार्तिक 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 1483 / 9-1-2020-33टी0ए0-20  
लखनऊ, 20 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-335

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 2207-टी/9-1-82-31-टी-80, दिनांक 12 मई, 1982 और समय-समय पर इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत तिन्दवारी, जिला बाँदा के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करने के लिए जिस अधिसूचना को जारी करने के लिए प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-(1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2-प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में, आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में भेजे जाने चाहिए। केवल उन्ही आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

### अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-2207-टी/9-1-82-31-टी-80, दिनांक 12 मई, 1982 और समय-समय पर इस निमित्त जारी अन्य

पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल संविधान के भाग-नौ-क के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत-तिन्दवारी, जिला बॉदा के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करती हैं:-

अनुसूची

नगर पंचायत-तिन्दवारी, जिला बॉदा के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र

क्र०सं०	ग्रामों के नाम	दिशाएँ	गाटो की संख्या
1	2	3	4
1	तिन्दवारी ग्रामीण	उत्तर	475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488, 498,499,500,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858, 859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872, 873
2	मुँगुस	दक्षिण	4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,529,530,531,532,539,540,541,542,543,544,545,546,547, 548,549,550,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668, 669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682, 683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696, 761,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806, 807,808,809,810,811,812,813,814, 815
3	तेरहीमाफी	दक्षिण	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,4, 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73, 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98, 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116, 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,136,137,138, 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152, 153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166, 167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180, 181,182,183,184,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338, 339,340,341,342,343,344,345
4	सोनरही	पूरब	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 ,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81, 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103, 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120, 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136, 137,138,139,140,141,142,143,144,145,323,324,325,325 / 431,326,327,328, 329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345, 346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361
5	तिन्दवारी ग्रामीण	पूरब	884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896, 910 / 1144,911,912,916,917,918,919,920,927,928,929,930, 1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043, 1044,1045,1046,1047,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089, 1090,1091,1092

क्र०सं०	ग्रामों के नाम	दिशायें	गाटो की संख्या
1	2	3	4
6	तिन्दवारी ग्रामीण	पश्चिम	173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186, 188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,197 / 1099,198, 199,200,201,202,203,245,246,247,248,249,250,251,252,253, 254,255,256,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278, 279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292, 293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306, 307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319, 319 / 1104,320,321,321 / 1105,335,336,337,338,339,340, 341,342,343,343 / 1106,375,376,377,379,380,381,382,383, 384,385,386,387,388

आज्ञा से,  
दीपक कुमार,  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1483/IX-1-2020-33T.A. /20, dated; November 20, 2020.

No. 1483/IX-1-2020-33T.A.-20

*Dated Lucknow, November 20, 2020*

The following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243 Q of the Constitution of India *read* with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no-2 of 1916) and in partial modification of notification no. 2207-T/9-1-82-31-T-80, dated May 12, 1982 and other previous notifications issued in this behalf including the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Tindwari in District Banda, is hereby published for the information of all concerned and with a view to inviting objections and suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Bapu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within 15 days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

#### **Draft Notification**

In exercise of the powers under clause (2) of Article 243Q of the Constitution *read* with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916), and in partial modification of notification no. 2207-T/9-1-82-31-T-80 dated May 12, 1982 and other previous notifications issued in this behalf from time to time the Governor is pleased to include the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Tindwari in District Banda for the purposes of Part IXA of the Constitution.

#### **SCHEDULE**

##### **Area being included in the transitional area of Nagar Panchayat Tindwari in District Banda**

Sl. No.	Name of Villages	Direction	Detail of Gatas
1	2	3	4
1	Tindwari Rural	North	475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488, 498,499,500,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858, 859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872, 873

Sl. No.	Name of Villages	Direction	Detail of Gatas
1	2	3	4
2	Mungus	South	4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,529,530,531,532,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,761,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815
3	Terhimaafi	South	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345
4	Sonrahi	East	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,323,324,325,325/431,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361
5	Tindwari Rural	East	884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,910/1144,911,912,916,917,918,919,920,927,928,929,930,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092
6	Tindwari Rural	West	173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,197/1099,198,199,200,201,202,203,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,319/1104,320,321,321/1105,335,336,337,338,339,340,341,342,343,343/1106,375,376,377,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388

By order,  
DEEPAK KUMAR,  
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 417 राजपत्र-2020-(938)-599+50=649 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/ऑफसेट)।